

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अप्रैल 2016—वैशाख 2, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. एफ-बी 4-02-2015-2-पांच, (12).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 5 तथा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा—

- (1) खण्डवा जिले की पुनासा तहसील में पंजीयन उप जिला पुनासा बनाती है जिसमें नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट-ग्राम समाविष्ट होंगे जो कि खण्डवा जिले के खण्डवा उप जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त खण्डवा उप जिले में सम्मिलित नहीं रह जाएंगे और उसके भाग नहीं रह जाएंगे;
- (2) पुनासा में एक कार्यालय स्थापित करती है जिसका अभिनाम उप पंजीयक कार्यालय, पुनासा होगा, और
- (3) यह निर्देश देती है कि खण्ड (1) तथा (2) के अधीन उप-जिले का बनाया जाना तथा उप पंजीयक के कार्यालय का स्थापित किया जाना तारीख 1 मई 2016 को तथा से प्रभावशील होगा.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	ग्राम का नाम (2)	बन्दोबस्त क्रमांक (3)	पटवारी हल्का क्रमांक (4)	राजस्व निरीक्षक वृत्त (5)
1	मोरटक्का माफी	335	1	मांधाता
2	कटार	46		
3	मोरघड़ी	356	2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	भोगावा	337	3	
5	इनपुन	34		
6	बील्लौरा बुर्जुग	297	4	
7	बील्लौरा खूर्द	296		
8	गोदडपुरा	0	5	
9	डुहिक्या	0		
10	मांधाता	0		
11	सैलानी	434	6	
12	बतखगढ़	0		
13	कोठी	76		
14	धावडिया	205	7	मांधाता
15	गुंजारी	0		
16	बीलाया	297	8	
17	पिपल्या सैलानी	233		
18	लोंदी	400		
19	मसलाय	344		
20	गुंजली	112	9	
21	घोसली	119		
22	सुलगांव	429	10	
23	खेडीबुजुर्ग	92	11	
24	मथेला	341	12	
25	नेतनगांव	216	13	
26	नरलाय	206	14	
27	बावडिया	287		
28	करौली	249	15	
29	बखरगांव	259		
30	पोहलगांव	98	1	
31	टोक्री	161		
32	कामनखेडा	56	16	
33	एखण्ड	40	17	
34	सक्तापुर	406		
35	केवलाबुर्जुग	70	18	
36	केवालाखुर्द	69	19	
37	ईन्धावडी	45	20	
38	गुर्जरखेडी	100	21	
39	रीछफल	379	22	
40	वायफल वनग्राम	0		
41	हनत्या वनग्राम	0		
42	मोहना	361		
43	मुण्डई	363	23	मोहना
44	गोलसैलानी	110	24	
45	हरवंशपुरा	440	25	
46	टेमांचा	220		
47	बोराडीमाल	313	26	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
48	दीयानतपुरा	182	27	
49	बोराडी रैयत	314		
50	राजपुरा	370		
51	अटूटखास	14	28	
52	बिहारीपुराखुर्द	300		
53	बिहारीपुराकला	299		
54	डुडगांव	165	29	
55	रजूर	365		
56	फिफराड	253		
57	अटूटबेनीपुरा	15	30	
58	किशनपुरा	62		
59	लालपुरा	396		
60	भगवानपुरा	321	31	मोहना
61	करौंद	48		
62	झिरन्यौं	151		
63	देवला रैयत	189	32	
64	खुटलाखुर्द	90		
65	कौडीगोल	80		
66	खुटलाकला	89	33	
67	जलवाबुर्जुंग	178	34	
68	कोदवार	75	35	
69	दैत	191		
70	अवलया वनग्राम	0		
71	नवलगांव	270	36	
72	फिफरी रैयत	255		
73	बडनगर रैयत	260	37	
74	बिजापुर	290		
75	काल्याखेडी	61		
76	माकडकच्छ	386	38	
77	धमनगांव-1	202	39	
78	धननगांव-2	203		
79	नान्दखेडा माफी	213	40	पुनासा
80	नान्दखेडा रैयत	313		
81	फिफरीमाल	237	41	
82	बोरदड रैयत	312		
83	दोलतपुरा	196	42	
84	छोटी टाकली वनग्राम	0		
85	बड़ी टाकली वनग्राम	0		
86	दामखेडाकला	179	43	
87	दामखेडा खुर्द	180		
88	उदयपुर	38		
89	पुनासा	186	44	
90	भवरला वनग्राम	0		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
91	रिछी	380	45	
92	बेढानी	303		
93	चिकढालीया वनग्राम	0		
94	सरल्या	407	46	
95	पिपलानी	237		
96	अंजनिया खूर्द	42	47	
97	अरोदा	25		
98	अंजनिय कला	41	48	
99	भादलीखेडा	326		
100	पालसूद रैयत	224	49	
101	पंधाना ठेका	284		
102	तेल्यामाल	176		
103	रोहणी	389	50	
104	उटडी	36		
105	उटावद	37	51	पुनासा
106	चिराखान	128		
107	जामकोटा	140	52	
108	बंजारी	317		
109	गुलगांव रैयत	102		
110	हैडई	440	53	
111	धारकवाडी	204		
112	जलकुंआ	137	54	
113	बिजौरा माफी	0	55	
114	बांगरदा	318	56	
115	अमोदा ठेका	23		
116	चिकटीखाल	122	57	
117	चांदेल	130		
118	पामाखेडी	156	58	
119	टिटवास/माथनी	110		
120	सिरकिया वनग्राम	0	58	
121	अंधारवाडी वनग्राम	0		
122	डण्ठा	112	59	
123	डाग	116		
124	नंदाना	145		
125	डाबरी	167		
126	बोरखेडी कला	20	60	
127	हनवंतियां	71		
128	भगवानपुर	206	61	मूंदी
129	भुरलाय	212		
130	फैफरीयांकला	169	62	
131	सिवर	71		
132	मोहन्या कला	228	63	
133	मोहन्या खूर्द	229		
134	सिवरिया	270	64	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
135	दिनकरपुरा	422	65	मूंदी
136	देवला	168		
137	दोहद	193	66	
138	दोगालियों	194		
139	मीर्जापुर	292		
140	सातमोहनी	411	67	
141	सिंधखाल	438		
142	फिफरीया	256		
143	पिपलकोटा	230	68	
144	गोंडखेडा	116		
145	चिचलीखुर्द	125	69	
146	कैनूद	68		
147	बौरानी	315		
148	इंजलवाडा	44	70	
149	भमोरी	142		
150	जामान्या	145	71	मूंदी
151	बावडिया	182		
152	गुयडा	97	72	
153	खैगांव	94	73	
154	पालसूदमाल	225		
155	काकरिया	54		
156	दूधवास	183	74	
157	मूंदी	0	75	
158	मोहद	359	76	
159	बीड़	95	77	
160	गौराडिया	101	78	
161	कौड़याखेडा	38	79	
162	भिलाई	211		
163	छालपीखुर्द	86	80	
164	गेहलगांव	66		
165	सिंधखेडा	228		
166	सोमगांव	286	81	
167	करोली	28		
168	सिंगाजी	0	82	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल 2016

क्र. एफ-बी 4-02-2015-2-पांच, (12).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी 4-02-2015-1-पांच, (12), दिनांक 22 अप्रैल 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd April 2016

No. F. B-4-02-2015-2-V (12).— In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government hereby,—

1. forms a registration sub-district of Punasa in Punsasa Tehsil of Khandwa district comprising the villages specified in column (2) of the schedule below which are included in and form part of the Khandwa sub-district of Khandwa district but shall hereafter cease to be included in and to form part of the said Khandwa sub-district;
2. establishes an office at Punasa to be styled as the office of Sub-Registrar, Punasa, and
3. directs that the formation of the sub-district and the establishment of the office of the sub-registrar under clauses (1) and (2) shall take effect on and from the 1st May 2016.

SCHEDULE

S. No.	Name of Village	Settlement Number	Patwari Halka No.	Revenue Inspector Circle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Morttaka Mafi	335	1	
2	Katar	46		
3	Morghadi	356	2	
4	Bhogava	337	3	
5	Inpun	34		
6	Billora Bujurag	297	4	Mandhata
7	Billora Khurd	296		
8	Godarpura	0	5	
9	Duhikya	0		
10	Mandhata	0		
11	Sailani	434	6	
12	Bakhatgarh	0		
13	Kothi	76	7	
14	Dhavadiya	205		
15	Gunjari	0		
16	Bilaya	297	8	
17	Pipliya Sailani	233		
18	Londl	400		
19	Maslay	344		
20	Gunjali	112	9	
21	Ghosali	119		
22	Sulgaon	429	10	
23	Khedi bujurg	92	11	
24	Mathela	341	12	
25	Netangoan	216	13	Mandhata
26	Narlay	206	14	
27	Bavdiya	287		
28	Karoli	249	15	
29	Bakhargoan	259		
30	Jhoghhalgoan	98	16	
31	Tounki	161		
32	Kamankheda	56		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	Akhand	40	17	
34	Saktapur	406	18	
35	Kelva Bujurg	70		
36	Kelva khurd	69	19	
37	Indhavadi	45	20	
38	Gujar Khedi	100	21	
39	Richphal	379		
40	Vayphal Vangram	0	22	
41	Hantiya Vangram	0		
42	Mohana	361	23	
43	Mundai	363		
44	Golsailani	110	24	Mohana
45	Harbanshpura	440	25	
46	Temacha	220		
47	Boradi mal	313	26	
48	Diyanatpura	182	27	
49	Boradi Raiyat	314		
50	Rajpura	370		
51	Atut khas	14	28	
52	Biharipura Khurd	300		
53	Biharipura kala	299		
54	Dudgaon	165	29	
55	Rajur	365		
56	Phipharad	253	30	
57	Atut bainipura	15		
58	Kishanpura	62		
59	Lalpura	396		
60	Bhagvanpura	321	31	
61	Karaund	48		
62	Ziranya	151		
63	Devla Raiyyat	189	32	
64	Khutala Raiyyat	90		
65	Kaudi Gol	80		Mohana
66	Khutala Kala	89	33	
67	Jalwa Bujurag	178	34	
68	Kodvar	75	35	
69	Daeit	191		
70	Avaliya Vangram	0		
71	Navalgaon	270	36	
72	Fifri Raiyyat	255		
73	Badnagar Raiyyat	260	37	
74	Bijapur	290		
75	Kaliya Khedi	61		
76	Makadkachh	386	38	
77	Dhamangaon	202	39	Phnasa
78	Dhamangaon 2	203		
79	Nandkheda Mafi	213	40	
80	Nandkeda Raiyyat	313		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81	Fifari Maal	237	41	
82	Bordad Raiyyat	312		
83	Dolatpur	196	42	
84	Chotitakali Vangram	0	-	Punasa
85	Badhi Takali Vangram	0		
86	Damkheda Kala	179	43	
87	Damkheda Khurd	180		
88	Udaipur	38		
89	Punasa	146	44	
90	Bhavarla Vangram	0		
91	Richhi	380	45	
92	Bedhani	303		
93	Chikdhaliya Vangram	0		
94	Saralya	407	46	
95	Pipalani	237		
96	Anjaniya Khurd	42	47	
97	Aroda	25		
98	Anjaniya Kala	41	48	
99	Bhadli Kheda	326		
100	Paalsud Raiyyat	224	49	
101	Pandhana Theka	284		
102	Telya Maal	176		
103	Rohani	389	50	
104	Utanhi	36		
105	Utavad	37	51	
106	Chirakhan	128		
107	Jamkota	140	52	
108	Banjari	317		
109	Gulgaon Raiyyat	102	53	Punasa
110	Hendai	440		
111	Dharakvadi	204		
112	Jalkuan	137	54	
113	Bijora Mafi	0	55	
114	Bangarda	318	56	
115	Amoda Theka	23		
116	Chikatikhal	122	57	
117	Chandel	130		
118	Pama Khedi	156	58	
119	Titvas Mathani	110		
120	Sirkiya Vangram	0		
121	Andharvadi Vangram	0		
122	Dantha	112	59	
123	Daang	116		
124	Nandana	145		
125	Daabari	167	60	
126	Borkheda Kala	20		Mundi
127	Hanvantiya	71		
128	Bhagvanpura	206	61	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
129	Bhurlay	212		
130	Fefariya Kala	169	62	
131	Sivar	71		
132	Mohanya Kala	228	63	
133	Mohanya Khurd	229		
134	Sivariya	270	64	
135	Dinkarpura	422	65	
136	Devla	168		
137	Dohad	193	66	
138	Dongaliya	194		
139	Mirjapur	292		
140	Satmohani	411	67	
141	Sindhkhal	438		
142	Fefariya	256		
143	Pipalkota	230	68	
144	Gondkheda	116		
145	Chichali Khurd	125	69	
146	Kenud	68		
147	Borani	315		Mundi
148	Injalvada	44	70	
149	Bhamori	142		
150	Jamanya	145	71	
151	Bavadiya	182		
152	Guyda	97	72	
153	Khaigaon	94	73	
154	Palsudmaal	225		
155	Kankariya	54		
156	Dudhvas	183	74	
157	Mundi	0	75	
158	Mohad	359	76	
159	Bid	95	77	
160	Goradiya	101	78	
161	Kaudiya Kheda	38	79	
162	Bhilai	211		
163	Chhaplikhurd	86	80	
164	Gehalgaon	66		
165	Sindhkheda	228		
166	Somgaon	286	81	
167	Karauli	28		
168	Singaji	0	82	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.